



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 9] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 26—मार्च 4, 2011 (फाल्गुन 7, 1932)
No. 9] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 26—MARCH 4, 2011 (PHALGUNA 7, 1932)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 3

[PART I—SECTION 3]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी असांविधिक नियमावलियों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]
[Notifications relating to the Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued
by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय
रक्षा विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 17 फरवरी 2011

संकल्प

(ii) संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित

- | | |
|---|-------|
| 5. श्री एन.एस.वी. चित्थन, संसद सदस्य
(लोक सभा) | सदस्य |
| 6. श्री राकेश सिंह, संसद सदस्य (लोक सभा) | सदस्य |
| 7. श्री जनार्दन द्विवेदी, संसद सदस्य (राज्य सभा) | सदस्य |
| 8. श्री ब्रजेश पाठक, संसद सदस्य (राज्य सभा) | सदस्य |

(iii) रक्षा मंत्री द्वारा नामित

- | | |
|--|-------|
| 9. डॉ. यार्लगुड्डा लक्ष्मी प्रसाद,
पूर्व संसद सदस्य,
इंजीनियरिंग कॉलेज स्टाफ क्वार्टर्स,
आंध्र विश्वविद्यालय, विशाखापत्तनम-530003 | सदस्य |
| 10. डॉ. ज्योतिष जोशी,
डी-4/37, एम.जी.आई. फ्लैट, द्वितीय तल,
सेक्टर-15, रोहिणी, दिल्ली-110085 | सदस्य |
| 11. श्री डी. कृष्णपणिक्कर,
टी.सी. 30/1312, 'गीतालयम',
पेट्टा पी.ओ., तिरुवनंतपुरम-24 | सदस्य |

सं. 11(5)/2008-रक्षा(रा.भा. 1)/संख्या 01--भारत के राजपत्र
भाग-I, खण्ड-3 में 21 मई, 2005 को प्रकाशित और समय-समय पर
यथा-संशोधित संकल्प संख्या 02 का अधिक्रमण करते हुए भारत सरकार
ने रक्षा मंत्रालय के रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग और
भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग की हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन
करने का निश्चय किया है।

2. इस समिति का गठन और कार्य इस प्रकार होंगे :--

I. गठन

- | | |
|-----------------------|-----------|
| 1. रक्षा मंत्री | अध्यक्ष |
| 2. रक्षा राज्य मंत्री | उपाध्यक्ष |

II. गैर-सरकारी सदस्य

(i) संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिनिधि

- | | |
|---|-------|
| 3. डॉ. निर्मल खत्री, संसद सदस्य (लोक सभा) | सदस्य |
| 4. प्रो. अलका बलराम क्षत्रीय, संसद सदस्य
(राज्य सभा) | सदस्य |

1-473 GI/2010

12. डॉ. गुरमीत सिंह, एच-230, शिखर अपार्टमेंट्स, सेक्टर-5, मंसादेवी कॉम्प्लेक्स, पंचकुला, हरियाणा	सदस्य	32. उप सेनाध्यक्ष	सदस्य
(iv) अखिल भारतीय हिन्दी स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधि		33. कार्मिक प्रमुख, नौसेना मुख्यालय	सदस्य
13. केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् का एक प्रतिनिधि	सदस्य	34. कार्मिक प्रभारी वायु अफसर, वायुसेना मुख्यालय	सदस्य
14. श्री मधुकरराव चौधरी, अखिल भारतीय हिन्दी संस्था संघ के प्रतिनिधि, “सरस्वती”, मुकाम व पोस्ट : खिरौदा, तहसील : रावेर, जिला : जलगांव-425504 (महाराष्ट्र)	सदस्य	35. महानिदेशक, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा	सदस्य
(iv) राजभाषा विभाग द्वारा नामित		36. महानिदेशक, पुनर्वास	सदस्य
15. श्री नानक चन्द, 38, सूर्य निकेतन, द्वितीय तल, दिल्ली-110092	सदस्य	37. महानिदेशक, राष्ट्रीय कैडेट कोर	सदस्य
16. श्री रमेश चन्द शर्मा, बी-295, सेक्टर-20, नोएडा-201301 (उ. प्र.)	सदस्य	38. महानिदेशक, रक्षा सम्पदा	सदस्य
17. श्री ललित कुमार गुप्ता, 631, सेक्टर-37, फरीदाबाद-121003	सदस्य	39. महानिदेशक, तटरक्षक कार्य	सदस्य
III. सरकारी सदस्य		3. इस समिति का कार्य रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग और भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग और उनके संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों के सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित मसलों पर सलाह देना होगा।	
18. रक्षा सचिव	सदस्य	कार्यकाल	
19. रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार, महानिदेशक, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन एवं सचिव, रक्षा अनुसंधान तथा विकास	सदस्य	4. समिति का कार्यकाल निम्नलिखित व्यवस्था के साथ सरकारी राजपत्र में संकल्प के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष होगा :--	
20. सचिव (भूतपूर्व सैनिक कल्याण)	सदस्य	(1) जो संसद सदस्य समिति के सदस्य हैं वे संसद सदस्य न रहने पर इस समिति के सदस्य नहीं रह सकेंगे।	
21. सचिव (रक्षा/वित्त)	सदस्य	(2) समिति के पदेन सदस्य अपने पद पर कार्य करते रहने तक समिति के सदस्य रहेंगे।	
22. सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय	सदस्य	(3) यदि किसी सदस्य के त्यागपत्र, मृत्यु, आदि के कारण समिति का कोई स्थान रिक्त होता है तो उस स्थान पर नियुक्त सदस्य तीन वर्ष के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए ही सदस्य रहेगा।	
23. विशेष सचिव (एम)	सदस्य	5. समिति का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में होगा, लेकिन समिति अपनी बैठकें किसी अन्य स्थान पर भी कर सकती है।	
24. विशेष सचिव (ए)	सदस्य	यात्रा भत्ता एवं अन्य भत्ते	
25. महानिदेशक (अधिग्रहण)	सदस्य	6. समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए गैर-सरकारी सदस्यों को राजभाषा विभाग के दिनांक 22 जनवरी, 1987 के कार्यालय ज्ञापन संख्या II/20034/4/86-रा.भा. (क-2) में निहित दिशा-निर्देशों के अनुरूप भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथा-संशोधित दरों एवं नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता दिया जाएगा।	
26. संयुक्त सचिव (जी/ए)	सदस्य	आदेश	
27. संयुक्त सचिव (ओ/एन)	सदस्य	आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, केन्द्रीय राजस्व के महालेखाकार, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों और सभी राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों को भेजी जाए।	
28. संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण) एवं मुख्य प्रशासन अधिकारी	सदस्य- सचिव	यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।	
29. संयुक्त सचिव (स्थापना एवं जन-शिकायत)	सदस्य	उपमन्यु चटर्जी	
30. सचिव, सीमा सड़क विकास मण्डल एवं एवं संयुक्त सचिव	सदस्य	संयुक्त सचिव	
31. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय	सदस्य		

MINISTRY OF DEFENCE

(DEPARTMENT OF DEFENCE)

New Delhi, the 17th February 2011

No. 11(5)/2008/D.(O.L.1)/01—In supersession of Resolution No. 2, published in the Gazette of India, Part-I, Section-III, dated 21st May, 2005, as amended from time to time, the Government of India have decided to reconstitute the Hindi Salahakar Samiti for the Department of Defence, Department of Defence Research & Development and Department of Ex-Servicemen Welfare.

2. The composition and functions of the Samiti will be as follows :—

I. Composition

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Raksha Mantri | Chairman |
| 2. Raksha Rajya Mantri | Vice Chairman |

II. Non-Official Members

(i) Representatives of the Committee of Parliament on Official Language

- | | |
|--|--------|
| 3. Dr. Nirmal Khatri,
M.P. (Lok Sabha). | Member |
| 4. Prof. Alka Balram Kshatriya,
M.P. (Rajya Sabha). | Member |

(ii) Nominated by the Ministry of Parliamentary Affairs

- | | |
|--|--------|
| 5. Shri N.S.V. Chitthan,
M.P. (Lok Sabha) | Member |
| 6. Shri Rakesh Singh,
M.P. (Lok Sabha). | Member |
| 7. Shri Janardan Dwivedi
M.P. (Rajya Sabha) | Member |
| 8. Shri Brajesh Pathak,
M.P. Rajya Sabha). | Member |

(iii) Members nominated by Raksha Mantri

- | | |
|---|--------|
| 9. Dr. Yarlagadda Laxmi Prasad,
Ex. M.P. Engineering College Staff
Quarters, Andhra University,
Vishakhapatnam-530003. | Member |
| 10. Dr. Jyotish Joshi,
D-4/37, MIG Flats, 2nd floor,
Sector-15, Rohini,
Delhi-110085. | Member |
| 11. Shri D. Krishna Panikkar,
T.C. 30/1312, Geetalayam, P.O. Petta,
Thiruvananthapuram-24. | Member |
| 12. Dr. Gurmeet Singh,
H-230, Shikhar Apartments, Sector-5,
Mansa Devi Complex, Panchkula
(Haryana) | Member |

(iv) Representatives of the Voluntary Hindi Organisations of All India level

- | | |
|---|--------|
| 13. A representative of Kendriya
Sachivalaya Hindi Parishad | Member |
| 14. Sh. Madhukarrao Chowdhary,
Representative, Akhil Bhartiya
Hindi Sanstha Sangh,
Saraswati, Mukam & Post : Khiroda,
Tehsil : Raver,
Distt. Jalgaon-425504 (Maharashtra). | Member |

(v) Nominated by Department of Official Language

- | | |
|---|--------|
| 15. Shri Nanak Chand,
38, Surya Niketan, 2nd Floor,
Delhi-110092. | Member |
| 16. Shri Ramesh Chand Sharma,
B-295, Sector-20, Noida-201301 (U.P.) | Member |
| 17. Shri Lalit Kumar Gupta,
631, Sector-37, Faridabad-121003 | Member |

III. Official Members

- | | |
|---|--------------|
| 18. Defence Secretary | Member |
| 19. SA to Raksha Mantri, DG, DRDO
and Secretary, Defence R&D | Member |
| 20. Secretary (ESW) | Member |
| 21. Secretary, (Defence/Finance) | Member |
| 22. Secretary, Deptt. of Official
Language, MHA | Member |
| 23. Special Secretary (M) | Member |
| 24. Special Secretary (A) | Member |
| 25. Director General (Acquisition) | Member |
| 26. Joint Secretary (G/A) | Member |
| 27. Joint Secretary ((O/N) | Member |
| 28. Joint Secretary (Trg.) and CAO | Member-Secy. |
| 29. Joint Secretary (E. & PG) | Member |
| 30. Secretary, BRDB & Joint Secretary | Member |
| 31. Joint Secretary, Deptt. of Official
Language, MHA | Member |
| 32. Deputy Chief of Army Staff | Member |
| 33. Chief of Personnel, Naval Hqrs. | Member |
| 34. Air Officer-Incharge (Personnel),
Air Hqrs. | Member |
| 35. DG, Armed Forces Medical Services | Member |
| 36. DG, Resettlement | Member |
| 37. DG, National Cadet Corps | Member |
| 38. DG, Defence Estates | Member |
| 39. DG, Coast Guard | Member |

Functions

3. The Samiti shall advise the Deptt. of Defence, Deptt. of Defence Research & Development and Deptt. of Ex-Servicemen Welfare and their attached and subordinate offices on matters relating to the progressive use of Hindi for official purposes.

Tenure

4. The tenure of the Samiti will be of three years from the date of publication of the Resolution in the Gazette, provided that :—

- (i) Members of Parliament, who are members of the Samiti, shall cease to be members of the Samiti as soon as they cease to be Members of Parliament.
- (ii) The ex-officio members of the Samiti shall continue as members so long as they hold office by virtue of which they are members of the Samiti.
- (iii) If a vacancy arises on the Samiti due to resignation or death of a member, the member appointed in that vacancy shall hold office for the residual period of the tenure of three years.

5. The Headquarters of the Samiti shall be at New Delhi but it may also hold its meetings at any other station.

Travelling and other allowances

6. The non-official members of the Samiti will be paid travelling and daily allowances for attending the meetings of the Samiti in accordance with the guidelines contained in the Deptt. of Official Language O.M. No. II/20034/4/86-O.L.(A-2), dated 22.01.1987 and as per rates and rules amended from time to time by the Government of India.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to President's Secretariat, Prime Minister's Secretariat, Cabinet Secretariat, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Planning Commission, Comptroller and Auditor General of India, AGCR, all Ministries and Departments of the Government of India and all State Governments and Union Territory Administrations.

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

UPAMANYU CHATTERJEE
Jt. Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2011

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2011